

शुद्धिपत्र CORRIGENDUM-7 दिनांकित DATED 27-11-2024

निविदा सूचना सं TENDER NOTICE NO: I-I/ET-TPT/24007/24-25
दिनांकित DATED 04-09-2024
(Tender ID: 2024_ITERI_824477_1)

काम / मद का विवरण Work / Item Description: Manufacturing, testing and supply of Duct Liners for ITER
Neutral Beam Systems

बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त निविदा के एनआईटी और भाग-A(I) में निम्नलिखित संशोधन किया गया है। **संशोधन-3 दिनांकित 27.11.2024** इसके साथ संलग्न है और CPP पोर्टल <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के साथ-साथ संस्थान की वेबसाइट <https://www.iterindia.in/tenders> पर भी अपलोड किया गया है।

It is notified to the bidders that the following amendment is made in NIT and Part-A(I) of the above mentioned tender. The **Amendment-3 dated 27.11.2024** is attached herewith and also uploaded on CPP Portal <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> as well as on Institute's website <https://www.iterindia.in/tenders>.

विवरण Description	निविदा के अनुसार तारीख Date as per Tender	विस्तारित तारीख Extended Date
निविदा जमा करने की अंतिम तारीख Bid submission closing date	27.11.2024 by 1:00 p.m.	05.12.2024 by 1:00 p.m.
भाग-A को ऑनलाइन खोलने की तारीख और समय (तकनीकी बोली) Time and date of online opening of Part-A (Technical Bid)	28.11.2024 at 2:30 p.m.	06.12.2024 by 2:30 p.m.

इस शुद्धिपत्र और पहले किए गए शुद्धिपत्रों को छोड़कर, सभी आवश्यक पात्रता मानदंड, तकनीकी विनिर्देश, नियम और शर्तें और उपरोक्त निविदा के अन्य विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।

Except this corrigendum and corrigendums made earlier, all Technical Specifications, Terms & Conditions and other details of the above mentioned tender shall remain unchanged.

Amendment-3 dated 27.11.2024

1. Ref. Tender Part No.	2. Ref. / Clause No.	3. In Place of	4. To be read as								
Part-A(I)	2	Technical Qualification Criteria <i>Table 1(a) Technical Qualification Criteria for the bidders</i> <table border="1"><tr><td>1.2 Compliance with Standards</td><td>10%</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">Provide 2 examples of projects executed according to ISO, EN, or ASME standards for non-safety important components, and 1 example of a project utilizing RCC-MR for safety important components, as outlined in the specifications.</td><td></td></tr></table>	1.2 Compliance with Standards	10%	<ul style="list-style-type: none">Provide 2 examples of projects executed according to ISO, EN, or ASME standards for non-safety important components, and 1 example of a project utilizing RCC-MR for safety important components, as outlined in the specifications.		Technical Qualification Criteria <i>Table 1(a) Technical Qualification Criteria for the bidders</i> <table border="1"><tr><td>1.2 Compliance with Standards</td><td>10%</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">Provide 2 examples of projects executed according to ISO, EN, RCC-MR, or ASME standards.</td><td></td></tr></table>	1.2 Compliance with Standards	10%	<ul style="list-style-type: none">Provide 2 examples of projects executed according to ISO, EN, RCC-MR, or ASME standards.	
1.2 Compliance with Standards	10%										
<ul style="list-style-type: none">Provide 2 examples of projects executed according to ISO, EN, or ASME standards for non-safety important components, and 1 example of a project utilizing RCC-MR for safety important components, as outlined in the specifications.											
1.2 Compliance with Standards	10%										
<ul style="list-style-type: none">Provide 2 examples of projects executed according to ISO, EN, RCC-MR, or ASME standards.											